

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 17 अक्टूबर 2014—आश्विन 25, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्र. एफ ए 3-26-2013-एक-(1)-1193.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2013-एक(1)-1601, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य सूची में विषय सौंपते हैं:—

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
05	डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री	वन
06	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	नगरीय विकास एवं पर्यावरण
13	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास और धर्मस्व
20	श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, मंत्री	परिवहन, विज्ञान और टेक्नालॉजी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्र. एफ ए 3-26-2013-एक-1-1194.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2013-एक (1)-1193, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 17th October 2014

No. F A 3-26-2013-One-(1)-1193.—In partial modification of the department's Notification No. F A 3-26-2013-One-(1)-1601, dated 23rd December, 2013 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to the charge of the following Minister, the Department(s) and/or the item(s) of business in the department(s) shown against their names:—

S. No.	Name of the Minister	Department(s) and/or item(s) of business in the Department assigned
(1)	(2)	(3)
5	Dr. Gauri Shankar Shejwar, Minister	Forest
6	Shri Kailash Vijayvargiya, Minister	Urban Development and Environment
13	Smt. Yashodhara Raje Sindhiya, Minister	Commerce, Industry and Employment, Sports and Youth Welfare, Religious Trusts and Endowments.
20	Shri Bhupendra Singh Thakur, Minister	Transport, Science and Technology, Public Service Management, Public Grievances Redressal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANTHONY DE SA, Chief Secy.